

Shivalik Bimetal Controls Ltd.

(A Govt. of India Recognised Star Export House)

Regd. Off.: 16-18, New Electronics Complex, Chambaghat, Distt. Solan-173213, H.P. (INDIA)
Phone: + 91 - 1792 - 230578 Fax: + 91 - 1792 - 230475, 230578
Email: plant@shivalikbimetals.com
Secretarial / Investor Department: investor@shivalikbimetals.com
CIN: L27101HP1984PLC005862





SBCL/BSE/2021-22/24

14th August, 2021

To,
BSE Limited
National Stock Exchange of India Ltd.
Corporate Relationship Deptt.

PJ Towers, 25th Floor, Dalal Street,
Mumbai – 400 001
Code No. 513097

To,
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block Bandra Kurla
Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051
Code No. SBCL

Sub.: Submission of Newspaper Advertisement to Shareholders requesting them to update their Email addresses and Bank Account particulars.

We send herewith copies of the Public Notice given by the Company by way of Newspaper Publications in the following Newspaper:

- a. Jansatta -Hindi Edition
- b. Financial Express English Edition

to the Members requesting them to register their email addresses etc. to enable them receive the Notice of General Meetings, Annual Report and other communications instantly in electronic form, pursuant to the MCA circular dated 05th May 2020.

Copy of the said Publications are submitted for your reference and record.

Thanking you,

Yours faithfully, For Shivalik Bimetal Controls Ltd.

Aarti Sahni Company Secretary

Encl: As above

Head Office: H-2, Suneja Chambers, 2nd floor, Alaknanda Commercial Complex, New Delhi - 110019 (INDIA)

Phone: +91-11-26027174, 26022538, 26028175, 26020806 Fax: +91-11-26026776 Email: shivalik@shivalikbimetals.com

RITZ MERCANTILE LIMITED

Registered Office: 603, Sethi Bhawan, 7, Rajendra Place, New Delhi-110008 (India) CIN: L52110DL1985PLC019805, Ph. No.: 011-25742255

Website: www.ritzmercantile.com, e-mail: ritzmercantilelimited@gmail.com

FOR THE QUARTER ENDED 30.06.2021 (Rs. in Thousands)									
Particulars	Quarter ended 30.06.2021	Quarter ended 31.03.2021	Quarter ended 30.06.2020	Year ended 31.03.202					
Total income from Operations (Net)	-100.616	-267.564	-97.211	-1069.101					
Net Profit/Loss from Ordinary Activities after Tax	-100.616	-188.68	-95.261	-983.58					
Net Profit/Loss from Ordinary Activities after Tax (after Extraordinary items)	-100.616	109.45	-95.261	-685.449					
Equity Share Capital	10500	10500	10500	10500					
Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of Previous year	10339.35	10601.55	7062.03	11403.09					
Earnings Per Share (before extraordinary tems) (Face Value of Rs. 10/- each)	F								
Basic	-0.10	-0.16	-0.09	-0.65					
Diluted	-0.10	-0.16	-0.09	-0.65					
Earnings Per Share (after extraordinary items) (Face Value of Rs. 10/- each)	Parameter 1		2000	2002					
Basic	-0.10	-0.16	-0.09	-0.65					
Diluted	-0.10	-0.16	-0.09	-0.65					

- Results have been reviewed & approved by Board of Directors at meeting held on 12.08.2021. Statutory Auditor have conducted a limited review.
- During Quarter ended 30th June, 2021, No investor complaints was received. There was no Complaint pending at beginning or end of Quarter/Period. Company operates only in One Segment.
- Figures pertaining to previous period/year have been regrouped, recast, reclassified. whereever necessary. For Ritz Mercantile Ltd

Garvit Singhvi

Place: New Delhi Whole-Time Director Date: 12.08.2021 DIN: 00597757

SMC CREDITS LIMITED 24. Ashoka Chambers, 5-B. Rajindra Park, Pusa Road, New Delhi-110060

CIN: L65910DL1992PLC049566, Website www.smccredits.com UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30™ JUNE, 2021

				500 100	(Rs. in Lacs)
590 PER 1990			Year ended		
	3 Net Profit for the period after tax (after extra ordinary items) 4 Total comprehensive Income 5 Paid up Equity Share Capital (Face value of Share Rs. 10/- each)	30.06.2021 Unaudited	31.03.2021 (Audited)	30.06.2020 Unaudited	31.03.2021 (Audited)
1	Total Income from operations (net)	146.74	98.29	87.97	516.33
2	Net Profit for the period before tax, Exceptional and Extra ordinary items	100.72	48.62	41.56	299.10
3		75.72	239.20	33.56	449.68
4	Total comprehensive Income	651.49	11252.01	2148.67	23331.97
5		1002.22	1002.22	1002.22	1002.22
6					48091.89
7	Earning per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (not annualised)				
	Basic in ₹ per share	0.76	2.39	0.33	4.49
	Diluted in ₹ per share	0.76	2.39	0.33	4.49

Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and othe Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the said guarter and year end are available on the stock exchange www.bseindia.com. The Management has assessed the potential impact of COVID-19 on the Company

1. The above is an extract of the detailed format of quarterly and year ended Financial

- and based on its review there is no significant impact on its financial results and or operations of the company further website www.smccredits.com. The above result are review by the audit committee and taken on record by the Board of
- Directors in their meeting held on 12" August, 2021. On behalf of the Board For SMC Credits Limited

Prasahesh Arya Place: New Delhi (Chairman & Executive Director) Dated: 12* August, 2021

SHARPLINE BROADCAST LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS ARCHIT HOLDINGS AND CREDITS LIMITED)

Email ID: sharplinebro	CIN: L22100DL19 d Floor, Rani Jhansi Ro adcastlimited@gmail.c Statement of Standalon For The Quarter Ended	oad Motia kha om Website: e Unaudited F	n, Paharganj, Del www.sharplinebr inancial Result	
Particulars	Quarter Ended (30/06/2021)	Quarter Ended		100 August 100 To 100 T

	fer Notes Below)	(30/06/2021) (Unaudited)	(31/03/2021) (Audited)	in the previous year (30/06/2020) (UnAudited)	(31/03/2021) (Audited)
1.	Total Income from Operations	96.66	289.22	19.92	579.29
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	(56.35)	26.93	(21.25)	7.54
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax(after Exceptional and/or Extraordinary (tems*)	(56.35)	26.93	(21.25)	7.54
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(56.35)	25.04	(21.25)	5.64
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	(56,35)	49.50	(21.25)	30,10
6.	Equity Share Capital	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.				
8.	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic : 2. Diluted :	-0.49 -0.49	0.43 0.43	-0.18 -0.18	0.26 0.26

The above is an extract of the detailed format of Quarter Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of footnote

Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable For Sharpline Broadcast Limited

> Name: Sanjeev Kumar Jha Designation: Whole Time Director DIN: 02840583

Date: 13/08/2021

Shivalik Bimetal Controls Ltd. Regd office: 16 18, New Electronics Complex, Chambaghat Distt, Solan HP 173213 Head Office: H-2, Suneia Chambers, IInd Floor, Alaknanda Commercial

Complex, New Delhi-110019, Ph: +91-011-26027174, 26026362, Fax: +91-011-26026776 Website: www.shivalikbimetals.com, Email: investor@shivalikbimetals.com CIN: L27101HP1984PLC005862

NOTICE In view of the continuing Covid-19 Pandemic, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) has

vide its circular dated May 5, 2020 read with circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and January 13, 2021, permitted the holding of Annual General Meeting (AGM) through Video Conference or Other Audio-Visual Means (OAVM). In compliance with these Circulars and the relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the upcoming AGM of the Company will be held on Wednesday, the 15th day of September, 2021 at 10.30 AM As per aforesaid circulars, the Notice of AGM along with the Annual Report for FY 2020-21

has to be sent only by electronic mode to those Members whose E-mail Id are already registered with the Company/ Depositaries. The Company is also providing e-voting an remote e-voting facility to all its Members similar to earlier practices. If your email ID is already registered with the Company/ Depositary, Notice of AGM alon

with Annual Report for FY 2020-21 and login details for e-voting shall be sent to you registered email address. In case you have not registered your email ID with the Company/ Depositary, please follow below instructions to register your email ID for obtaining Annual Report for FY 2020-21 and login details for e-voting. Physical Send a request to Registrar and Transfer Agents of the Company, MA

Holding	Services Limited at info@masserv.com providing Folio number, Name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back) PAN(Self attested scanned copy of PAN Card), AADHAR (Self attested scanned copy of Aadhar Card) for registering email address. Please send your bank detail with original cancelled cheque to our RTA (i.e. MAS Services Limited, T-34 2nd Floor, Okhla Industrial area Phase-II, New Delhi 10020 alongwith letter mentioning folio no. if not registered already.) PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 08TH SEPTEMBER, 2021
Demat Holding	Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised by DP. Please also update your bank detail with your DP for dividend payment by

NACH if declare by company. PLEASE UPDATE THE SAME ON OR BEFORE 08TH SEPTEMBER, 202

The Notice of AGM and Annual Report for FY 2020-21 will also be available on Company's website -at www.shivalikbimetals.com, website of BSE Limited at www.bseindia.com and & National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com . Members attending the meeting through VC/ OAVM shall be counted for the purpose of Quorum

r.in

financialexp

under Section 103 of the Companies Act, 2013. For Shivalik Bimetal Controls Limited Aarti Sahni Place: New Delhi Company Secretary Date: 13.08.2021

ELLORA TRADERS LIMITED.

CIN: L27101UP1985PLC007438 16/95. THE MALL KANPUR - 208001 Extract of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June 2021 See Regulation 47(1) (b) of the Securities and Exchange Board of India

3 Months Ended 30 June 21	3 Months Ended 30 June 20	(Rs. In Lacs Year Ended 31 Mar 21
2.11	2.34	Audited 9.49
-0.49	0.51	-32.40
-0.49	0.51	-32.40
-0.49	0.51	-32.40
-0.49	0.51	-32.87
299.18	299.18	299.18
34		102
-0.01	0.02	-1.08
	Ended 30 June 21 Unaudited 2.11 -0.49 -0.49 -0.49 299.18	Ended 30 June 20 Unaudited 2.11 2.34 -0.49 0.51 -0.49 0.51 -0.49 0.51 299.18 299.18

Place: KOLKATA

Whereas

The above is an extract of the Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.msei.in) and also available on the Company website (www.elloratraders.com) The Financial Results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards

(Ind As) as prescribed under section 133 of the Companies Act. 2013, read with relevant rules issued thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. Date: 12.08.2021 Madan Mohan Pathak

CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266 Branch Office: D-17 Sec -3 Noida UP

POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

APPENDIX IV [See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

The undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security nterest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 15.05.2021 calling upon the borrowers namely Mrs. Renuka Sharma and Mr. Ajay Sharma to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 36,46,292.38/- (Rupees Thirty Six Lakhs Forty Six Thousand Two Hundred Ninety Two and Paise Thirty Eight Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and

the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rule 8 the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 9th Day of August The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the

property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of Rs. 36,46,292.38/- (Rupees Thirty Six Lakhs Forty Six Thousand Two Hundred Ninety Two and Paise Thirty Eight Only) and interest thereon. The borrowers attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Section 13 of the act, in

respect of time available, to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of Flat Bearing Unit No. B-1908, Block-B,

admeasuring 1290 Sq. Ft. 19th Floor. Oasis Venetia Heights, Plot No. HRA12A. Surajpur Site-C. Housing Complex. Greater Noida UP-201308. **Authorized Officer** Place: UP, Noida Aditya Birla Housing Finance Limited

PUBLIC ANNOUNCEMENT [Regulation 31(2) read with Regulation 12(3) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation Process) Regulations, 2016] FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF **XECUTE HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED IN LIQUIDATION**

Process) Regulations, 2016, Public Announcement is hereby madethat the List o Stakeholders of M/s Xecute HR Solutions Private Limited in Liquidation ("Corporate Debtor") has been prepared by the Liquidator, which has been filed with the Hon'ble National Company Law Tribunal, DelhiBench-VI ("Hon'ble NCLT") on 9th August, 2021. Since the website of the Corporate Debtor is not functional, the List of Stakeholders showing complete details of the amount of claims admitted by the Liquidator, details of Stakeholders and amount of claims admitted/rejected in part is stated hereunder:

Pursuant to Regulation 31(2) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Liquidation

	List of Claim filed by Financial Creditors	
SI. No.	Name of Creditor	Total Claim (In Rs)
1	Vikram Jhunjhunwala	45,94,758.00
2	Redback Advisory Services Private Limited	52,98,361.00
3	HDFC Bank Limited	4,36,56,982.99
5	India Infoline Finance Limited	30,37,463.92
	TOTAL	5,65,87,565.91
	List of Claim filed by Operational Credit	ors
SI. No.	Name of Creditor	Total Claim (In Rs
1	Shrine India Advisors Private Limited	3,22,300.00

Stakeholders, as filed with the Hon'ble NCLT, can be made by filing an application with the Hon'ble NCLT. Sanju Kumar

The Stakeholders are further notified that any modification of entries in the List o

3,22,300.00

Liquidator

TOTAL

Xecute HR Solutions Private Limited – in Liquidation IBBI Regn. No.: IBBI/IPA-002/IP-00865/2019-20/12798 Date: 13.08.2021 Place: Delhi E-mail ID: xhsplcirp@gmail.com

CAPITAL PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat - 362266

Branch Office: D-17 Sec -3 Noida UP

APPENDIX IV [See Rule 8 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002] POSSESSION NOTICE (for Immovable Property)

The undersigned being the authorized officer of Aditya Birla Housing Finance Limited under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules. 2002 issued a demand notice dated 27.07.2020 calling upon the borrowers namely Hari Ram and Renu to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 37,23,165.16/- (Rupees Thirty Seven Lakhs Twenty Three Thousand One Hundred Sixty Fiveand Paise Sixteen Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of the powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said act read with rule 8 the Security Interest (Enforcement) Rules. 2002 on this 9th Day of August

The borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Aditya Birla Housing Finance Limited for an amount of Rs. 37,23,165 .16/- (Rupees Thirty Seven Lakhs TwentyThree Thousand One Hundred Sixty Five and Paise Sixteen Only) and interest thereon. The borrowers attention is invited to the provisions of sub-section 8 of Section 13 of the act. in respect of time available, to redeem the secured assets.

All that part and parcel of the property consisting of Flat No. C-1502, 15th Floor, Oasis Venetia Heights, Plot No. HRA12A, Suraipur Site-C, Housing Complex, Greater Noida, UP-201308.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

Date: 09/08/2021 **Authorized Officer** Aditya Birla Housing Finance Limited Place: UP Greater Noida NIRAJ ISPAT INDUSTRIES LIMITED

CIN No. L27106DL1985PLC021811 : 5140/41/34 CHAUDHARY MARKET GALI PETI WALI, RUI MANDI, SADAR BAZAR, DELHI-110006 Corpoarte Office: 19. G.T. ROAD GHAZIABAD, UTTAR PRADESH- 201002

Email ID: nirajispatindustries@gmail.com Website: www.nirajispat.in Phone no. 011-23551821, 011-64581675, Phone No. 011-23551821, 0120-6526390 (Lacs.) Quarter | Previous Year | Corresponding 3

Refer Notes Below)	Ended (30/06/2021) (Un-Audited)	(31/03/2021) (Audited)	months ender in the Previous Yea (30/06/2020 (Un-Audited
Total Income from Operations	86.37	356.47	32.3
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items*)	23.03	45.57	11.10
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items*)	23.03	45.57	11.10
Net Profit/(Loss) for the period after tax(after Exceptional and/or Extraordinary items)	17.24	34.68	8.8
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)]	17.24	34.68	8.8
Equity Share Capital	60.00	60.00	60.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year.		913.90	
Earning Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) 1. Basic : 2. Diluted :	2.87 2.87	5.78 5.78	1.4/ 1.4/

Exchange under Regulation 33 of the SEBI(Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) and the listed entity The impact on net profit/loss, total comprehensive income or any other relevant financial items due to changes in accounting policies shall be disclosed by means of footnote # Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, whichever is applicable

Date: 12.08.2021

For Niraj Ispat Industries Limited Name: CHAITANYA CHAUDHRY

Designation:Director and CEO DIN: 06813394

Date: 14.08.2021

Place: Delhi

FINANCIAL EXPRESS

TATA 7th Floor, Videocon Tower, Jhandewalan Extension, Block-E, Delhi - 110055

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules. 2002, issued a Demand Notice dated 14.04.2021 as below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The Borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) read with Rule 8 of the said Act.

The Borrowers, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Tata Capital Financial Services Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date of demand notice.

Amount as

on dated

Date of

Possession

11.08.2021

Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/

Legal Representative(s)

1. MUNENDRA SINGH AND 2. ABHA THAKUR,

21540384	BOTH R/O HOUSE NUMBER 1449/163-A, UG FLOOR, GALI NUMBER 4-A, DURGA PURI, SHAHDARA, NAND NAGRI, DELHI-110093 AND 3. M/S AEGLE MARMELOS ASSOCIATES, THROUGH ITS PROPRIETOR, R/O FIRST FLOOR, PLOT NUMBER 163, KHASRA NUMBER 818/542, 1449/163-A, SHAHDARA, NEW DELHI-110093	Rs. 24,68,450/-
----------	---	--------------------

Loan

ecount No

Description of the Secured Assets/Immovable Properties: PROPERTY BEARING NUMBER 1/4271, AREA MEASURING 41 SQUARE YARDS, I.E., 34.28 SQAURE METERS, OUT OF KHASRA NUMBER 553, SITUATED IN THE AREA OF VILLAGE SIKDAR PUR IN THE ABADI OF RAM NAGAR EXTN. LONI ROAD, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110032, MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN SALE DEED DATED 25.07.2018, EXECUTED IN FAVOR OF MRS. ABHA THAKUR.

BOUNDED AS: EAST: STREET, WEST: PART OF PROPERTY, SOUTH: OTHER'S PROPERTY, NORTH: GALI 15'

ansaL API

Date: 14.08.2021 Sd/- Authorized Officer Place: Delhi For Tata Capital Financial Services Limited

Building Lifestyles Since 1967 Ansal Properties & Infrastructure Limited Corporate Identity Number: L45101DL1967PLC004759 Regd. Office: 115, Ansal Bhawan, 16, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 **Mobile:** 91-9871053419, **Tel.:** 011-23353550, 66302269/72 Website: www.ansalapi.com; Email: shareholderservice@ansalapi.com

Notice is hereby given that the 54th Annual General Meeting (AGM) of the Members (Shareholders) of Ansal Properties & Infrastructure Ltd. will be held on Tuesday, the 28th September, 2021 at 11:30 A.M. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual In accordance with the Securities and Exchange Board of India (SEBI) circulars dated the

NOTICE

15th January, 2021 and 12th May, 2020 and circular Nos, 02/2021, 20/2020, 17/2020 and 14/2020 dated the 13th January, 2021, 05th May, 2020, 13th April, 2020 and 08th April, 2020, respectively, issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("Listing" Regulations"), the AGM of the Company shall be held through VC / OAVM and the Notice convening the 54th AGM along with the Annual Report for the financial year 2020-21 shall be sent only by electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company or with the Depository Participant/ Depository. The Notice of AGM and Annual Report of the Company for the financial year 2020-21 will

be available on the website of the Company www.ansalapi.com and also on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com. These documents will also be available on the website of Company's Registrar and Share Transfer Agent i.e. Link Intime India Pvt. Ltd. ('LIIPL') at https://instavote.linkintime.co.in. The Board of Directors of the Company have not recommended any dividend for the

financial year 2020-21. Manner of getting email registered to receive notice of AGM and Annual Report

Members holding shares in physical mode and who have not registered / updated their e-mail address with the Company are requested to register / update the same by writing to the Company with details of folio number and attaching a self-attested copy of PAN card (in case of non-individual shareholders, authority letter/resolution is required) at shareholderservice@ansalapi.com or to Link Intime India Private Ltd.,(LIIPL) at shamwant.kushwah@linkintime.co.in or shareholders can update e-mail address thorough the link viz. https://linkintime.co.in/emailreg/email_register.html.

Members holding shares in dematerialised mode are requested to register / update their e-mail address with the relevant Depository Participant or can register his/her e-mail address through the above URL temporarily.

Casting vote by members through remote e-voting/ e-voting system during the AGM Members of the Company who are holding shares in physical mode and who have not registered their e-mail addresses with the Company as well as members who have not updated their e-mail address with the Depository Participant may obtain the login id and password for casting their vote (by logging on to LIIPL's e-voting System https://instavote.linkintime.co.in) through remote e-voting/ e-voting system during the AGM by following the instructions mentioned in the notes to the Notice of the 54thAGM. Members are requested to carefully read the Notice of AGM and in particular, instructions for joining of the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or voting at the

For Ansal Properties & Infrastructure Ltd.

General Manager (Corporate Affairs) and Company Secretary M. No. FCS-7135

TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED TATA 7th Floor, Videocon Tower, Jhandewalan Extension, Block-E. Delhi - 110055

POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY) (As per Rule 8(1) of the Security Interest Enforcement Rules, 2002)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the Tata Capital Financial Services Ltd. under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated May 22, 2021 as below calling upon the Borrowers to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

Borrowers, in particular and the public, in general, that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) read with Rule 8 of the said Act.

deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Tata Capital Financial Services Limited, for an amount referred to below along with interest thereon and penal interest, charges, costs etc. from date of demand notice. Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/ Amount as Date of

Account No.	Legal Representative(s)	on dated	Possession
7906121	1. KRISHAN YADAV, 2. MANJU DEVI AND 3. KAMLESH YADAV, ALL R/o-HOUSE NO. 365, KAPASHERA, VILLAGE, VASANT VIHAR, SOUTH WEST DELHI, DELHI-110037 AND 4. M/S KRISHAN GARV MAYUR AND CO., THROUGH ITS PROPRIETOR, PROPERTY NO. 227, NEAR SBI BANK, MAIN ROAD, KAPASHERA VILLAGE, DELHI-110037	Rs. 89,60,211.35/- as on 22 May, 2021	13.08.2021

Description of the Secured Assets/Immovable Properties: PROPERTY AREA MEASURING 509 SQ. YDS. (APPROX.), OUT OF KHASRA NOs.594-601-602, SITUATED IN EXTENDED LAL DORA ABADI OF VILLAGE KAPASHERA, TEHSII VASANT VIHAR, NEW DELHI, MORE PARTICULARLY DESCRIBED IN REGISTERED MORTGAGE DEED DATED 13.10.2017 & SALE DEED DATED 17.01.2007 EXECUTED IN FAVOR OF KAMLESH YADAV, REGISTERED IN THE OFFICE OF SUB REGISTRAR (IX) OF NEW DELHI, DULY REGISTERED VIDE REGISTRATION NO 924, IN BOOK NO. 1, VOLUME NO. 3432, ON PAGES 163 TO 169, REGISTERED ON 17.01.2007. AND BOUNDED AS: EAST: HOUSE OF SH. DAMODAR, WEST: RASTA NORTH: HOUSE OF SHEODAN SINGH, SOUTH: PROPERTY OF GAYANWATI

{Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014} Before the Central Government, Regional Director, Northern Region, New Delhi n the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act. 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies

(Incorporation) Rules, 2014

AND

In the matter of **HOLOSAFE**

SECURITY LABELS PRIVATE LIMITED (CIN: U36900DL2008PTC180812) having its Registered Office at C/o MR. RAVI JHA Č-41, MIDDLE CIRCLE DWARKA SADAN, CONNAUGHT PLACE **NEW DELHI-110001** ..Applicant Company / Petitioner

application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act. 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh".

Any person whose interest is likely to be

affected by the proposed change of the

registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor **complaint form** or cause to be delivered or send by registered post of his /her objections supported by an affidavit stating the nature of his / her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern Region. Ministry of Corporate Affairs, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within fourteen days (14) from the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its

DWARKA SADAN, CONNAUGHT PLACE **NEW DELHI-110001** For & on behalf of HOLOSAFE SECURITY LABELS PRIVATE LIMITED **PANKAJ KUMAR**

Date: 13.08.2021 Place : New Delhi DIN: 02195405

Registered Office at the address mentioned

C/o MR. RAVI JHA C-41, MIDDLE CIRCLE,

Form No. INC-26 (Incorporation) Rules 2014] Advertisement to be published in the

newspaper for change of registered office of

In the matter of UTTAR BHARAT HYDRO

POWER PRIVATE LIMITED ("Company") having NOTICE is hereby given to the General Public its registered office at A-2/452, Sector-8, Rohini, that the company proposes to make Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make Application to the Central Government (Regional Director) under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in Monday, 09th August, 2021 to enable the terms of the Special Resolution passed at the Extra-Ordinary General Meeting held on Monday

on 12th July, 2021 to enable the Company to change its Registered Office from the "National Capital Territory of Delhi" to "State of Harvana" Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office

office at the address mentioned below: Registered Office:- A-2/452, Sector-8, Rohini,

Delhi-110085. By order of the Board For UTTAR BHARAT HYDRO POWER PRIVATE LIMITED

Place: Delhi Date: 13.08.2021

DCB BANK

JEWELLERY AUCTION CUM INVITATION NOTICE

Date: 12th August, 2021

PUBLIC NOTICE

Place: New Delhi

below:-

The below mentioned Borrowers have been issued notices to pay the entire dues under facilities availed by them against jewellery from DCB Bank Limited. We are constrained to conduct auction of the jewellery as they have failed to pay the entire dues. DCB Bank Limited has the authority to remove account(s) / change the auction date(s) without any prior notice. The auction

Tower A, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013

will be conducted online through https://egold.auctiontiger.net on 23.08.2021 and 24.08.2021 from 12:00 pm to 2:00 pm. Customer Customer Customer **Customer Name Customer Name Customer Name** No. No. ID ID ID Sheela Sheela 100880063 Sunil Kumar 52 102301782 104 102858170 Surender Kumar Jain 100890724 Khadija Mehar 53 102317860 Shahin Parveen 105 102859222 Sumit

(Abdul Sami)

E 1000007E4	Milavija moriai	2.5	200	102011000	Cenariti i di vonii		100 105000555	Outring
3 100998267	Shazia Zeeshan		54	102350980	Rukhsana		106 102861208	Manju Devi
4 101077431	Sunil Kumar		55	102352571	Anuj Dhama		107 102861213	Rishabh Jain
5 101147813	Jabeen Sonic	1	56	102409178	Renu Devi		108 102861660	Sajana
6 101181691	Bharat Bhushan		57	102493739	Mohd Aarish		109 102862810	Renu Devi
7 101205351	Firoj Khan		58	102585747	Suman Kumar Choudhary		110 102866834	Mohd Anis
8 101207522	Deepak Singh		59	102701091	Danish		111 102870196	Mohammad Haroon
9 101210222	Sachin Bhamba		60	102719968	Shailesh Kumar Gupta		112 102870532	Sarla
10 101210376	Raj Kumar		51	102781158	Sunita Kumari		113 102871778	Naveen Vohra
11 101211654	Ajay Jaiswal		62	102794293	Devendra Kumar Dixit		114 102873056	Amit Kumar
12 101231963	Hirday Narayan		63	102794927	Mohd Salman		115 102874777	Hashim
13 101304185	Jai Bhagwan		54	102797167	Pooja Dixit		116 102874790	Amir Meraj
14 101305074	Sanjay Kumar		65	102798313	Monika		117 102875223	Manoj Kalra
15 101317634	Mohit Singh		66	102800203	Mohd Imran		118 102875877	Chandar Sen
16 101318281	Sandeep Ghawari		67	102805314	Babu Lal Sharma		119 102878878	Satendra
17 101327965	Punit	1 1	86	102805328	Bharti Gandhi		120 102881164	Mohit Kumar Sahu
18 101336311	Anil Kumar		59	102807628	Samad Nasir		121 102881798	Pradeep Mishra
19 101336390	Manjit Singh	1 1	70	102807634	Amit Jain		122 102882464	Gitika Jain
20 101339825	Ranjeet Singh		71	102809596	Ajay Sharma		123 102883547	Yatin Kumar
21 101349596	Ajit Singh		72	102812130	Vishal Sharma		124 102884957	Mukesh Kumar Singh
22 101395518	Nisha Nisha	1 100	73	102813874	Mohd Yusaf	_	125 102885089	Monalisa Mohanty
23 101418361	Paritosh Tyagi		74	102816405	Neeraj Jain		126 102886088	Vakeelur Rahman
24 101418369	Rahul Sharma		75	102817031	Pooja	_	127 102886842	Sumit Kumar
25 101434617	Deepak Kaushal		76	102819299	Rahul Kumar		128 102888058	Balraj
26 101555786	Sanjay Thakur		77	102819747	Mohd Naushad		129 102899524	Nadeem Khan
27 101671820	Kashish	1 1000	78	102820610	Sanjay Budhiraja	_	130 102899875	Tripta
28 101678828	Poonam Sharma	100	79	102820634	Preety Tanwar		131 102903099	Amit Kumar
29 101700808	Bharat		80	102820898	Yogesh Kumar	_	132 102905600	Aman Mathur
30 101760803	Ishu Jain		81	102822330	Ruksana	_	133 102908397	Khem Chand
31 101774537	Subhan Ali		82	102823053	Shahrukh		134 102911420	Rahul
32 101789561	Anup Kumar	1 100	83	102823105	Shiv Kumar	-	135 102915098	Krishan Kumar
33 101802536	Shahrukh		84	102823832	Sapna Sharma	_	136 102917355	Kanhaiya Kumar
34 101807658	Aashish Nautial	1 100	85	102825687	Mohd Moin Kureshi	-	137 102922095	Khalil Ahmad
35 101808864	Rabin Raja Khan		86	102826707	Manmeet Singh	-	138 102924416	Manoj Kumar
36 101808880	Mohd Zahid	1 1	37	102829707	Intzar Ahmad	-	139 102929701	Anant Pandey
37 101810908	Darshan Preet Singh Zandu	1 100	88	102831412	Salma Begum	-	140 102931885	Lata Sharma
38 101827293	Jasbir Singh	100	89	102832136	Anita Jain	-	141 102931965	Pawan Kumar
39 101836528	Mukesh Gautam	- Berri	30	102832644	Dinesh Singh	_	142 102931976	Ranjan Mandal
40 101855869	Mohd Rahis	_	91	102833108	Jay Prakash	-	143 102933311	Qamar Ahmed
41 101942876	Shyama Nand	-	32	102833885	Sandeep Kumar	-	144 102933315	Kusum
42 101963142	Indira Sharma	-	93	102835157 102836627	Badri Yadav Vaibhav Dixit	-	145 102933317	Hasan Arzoo
43 102077019	Ram Chander Chaurasiya		95	102839432	Rohit Kumar	-	146 102933776	Rajesh
44 102094336	Mohd Naeem		96	102839432	Rubeena	-	147 102933781	Parvinder Singh
45 102104788	Satish Kumar Verma		90		- CONTRACTOR - CON	-	148 102934666	Pushpa Rani
46 102114233	Zakir Malik	_	98	102840378 102841680	Sunil Tyagi Parvez	-	149 102934667	Rajesh
47 102115931	Bhawna		39	102843630	Hanif Khan	-	150 102935051	Vandana
48 102125687	Tej Pal Sharma		_		Nidhi Dubey	_	151 102935054	Vipin Kumar
40 102123001	Sahir		100	102044004	Dram Chand Charms		152 1242030	Manoi Kumar Chouhan

49 102144498 Sabir 152 1242939 Manoi Kumar Chouhan 101 102846494 Prem Chand Sharma 50 102224954 Shahajahan 102 102848749 153 2038331 Rafiuddin Rafiuddin 102277814 Baijnath Gupta 103 102856533 Rahisudeen Malik 154 534811 Amardeep Kaur By way of this notice, the concerned Borrowers are hereby given final notice and last opportunity to pay the facility recalled amount in full, with all interest and charges before the scheduled

conditions for participation in the auction. Authorised Officer DCB Bank Limited

auction date failing which the jewellery will be auctioned. If the auction is not completed on the specified auction date(s), the auction shall continue for 7 subsequent days without further notice. Participation in the auction and acceptance of bid(s) will be at the sole discretion of the DCB Bank Limited. Please note that the auction shall be on "as is where is basis", "as is what is basis", "whatever there is basis" and "no recourse basis" and DCB Bank Limited shall not be liable and responsible for any claims of whatsoever nature including but not limited to claims related to the lewellery. Bidders may kindly visit https://egold.auctiontiger.net for detailed terms and

New Delhi

The Borrowers, having failed to repay the amount, notice is hereby given to the

The Borrowers, in particular, and the public in general, are hereby cautioned not to

Account No.	Legal Representative(s)	on dated	Possession
7906121	1. KRISHAN YADAV, 2. MANJU DEVI AND 3. KAMLESH YADAV, ALL R/O-HOUSE NO. 365, KAPASHERA, VILLAGE, VASANT VIHAR, SOUTH WEST DELHI, DELHI-110037 AND 4. M/S KRISHAN GARV MAYUR AND CO., THROUGH ITS PROPRIETOR, PROPERTY NO. 227, NEAR SBI BANK, MAIN ROAD, KAPASHERA VILLAGE, DELHI-110037	Rs. 89,60,211.35/- as on 22 May, 2021	13.08.2021

Date: 14.08.2021 Sd/- Authorized Officer Place: New Delhi For Tata Capital Financial Services Limited

> Form No. INC-26 [Pursuant to Rule 30 of the Companies

> > the Company from one state to another. Before the Central Government/Regional Director, Northern Region, New Delhi In the matter of sub section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013, and clause (a) of sub rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

of the Company may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the "Regional Director, Northern Region, B-2 wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi- 110003 within fourteen days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant Company at its registered

> Rajiv Bansal Director DIN: 08715090

Registered Office: 601 & 602, Peninsula Business Park, 6th Floor,

आरसासा समिन्ट्स लिमिटेड

सीआईएन: L26942DL1991PLC043776 पंजीकृत कार्यालय : 702, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली-110001 दूरभाषः 011-43571042, फैक्सः 011-43571047, वेबसाइटः www.rcccements.com, ई-मेल आईडी: rcccementslimited@gmail.com

30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैण्डअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(रु. लाखं में)

क्र.	विवरण		30.06.2020 को	
सं.			समाप्त तिमाही हेतु	
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से निबल आय (निबल)	0.12	0.00	0.00
2	अवधि हेतु (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) निबल लाभ/(हानि)	(2.88)	(2.22)	(13.12)
3	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदीं के पश्चात) निबल लाभ/(हानि)	(2.88)	(2.22)	(13.12)
4	कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) निबल लाभ/(हानि)	(2.88)	(2.22)	(13.12)
-5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से निर्मित]	(2.88)	(2.22)	(13.12)
6	इक्विटी शेयर पूँजी	560.20	560.20	560.20
7	गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार आरिक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन को छोड़कर)			(197.64)
8	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक के) (सतत तथा असतत प्रचालनों हेतु)			
	बेसिक :	(0.05)	(0.04)	(0.23)
ш	डाइल्यूटेड :	(0.05)	(0.04)	(0.23)
नोट	ः उपर्यक्त सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्ष	ाएँ) विनियम, 201	5 के विनियम 33	के तहत बीएसई

के साथ दर्ज 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है उपर्युक्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com तथा कम्पनी की विबसाइट www.rcccements.com पर उपलब्ध है।

> आरसीसीसी सीमेंट्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर रं सुनील कुमार

स्थान : नई दिल्ली प्रबन्ध निदेशक तिथि : 13 अगस्त, 2021 डीआईएन : 00175301

CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCE ADVISING आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : इंडियन रायन कम्पाउंड, वेरावल, गुजरात-362266 शास्त्रा कार्यालय: डी-17, सेक्टर-3, नोएडा यूपी

परिशिष्ट IV (प्रतिभृति हित (प्रर्वतन) नियम, 2002 नियम 8(1) देखे) कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के अधिनियम सं. 54) के अंतर्गत आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने सरफँसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत मांग सूचना तिथि 27.07.2020 जारी कर ऋणधारक हरि राम एवं रेनू को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रू. 37,23,165.16 / – (रूपये सैंतीस लाख तेईस हजार एक सौ पैंसठ एवं सोलह पैसे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि 09 अगस्त 2021 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमायली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां वर्णित

संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय को बकाया रू. 37,23,165.16 / – (रूपये सैंतीस लाख तेईस हजार एक सौ पैंसठ एवं सोलह पैसे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड के चार्ज के

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

साइट-सी, हाउसिंह कॉम्पलैक्स ग्रेटर नोएडा, यूपी-201308 की सम्पत्ति के सभी भाग एवं

दिनांक 09.08.2021 प्राधिकत अधिकारी स्थान : यूपी, ग्रेटर नोएडा आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

फ्लैट नं. सी-1502, 15वां फ्लोर, ओआसीस वनेशिया हाईटस, प्लाट नं. एचआरए 12ए, सुरजपुर

SIDDHIKA

SIDDHIKA COATINGS LIMITED CIN No.: U45400DL2010PLC206024

Reg Office - L-9, Lower Ground Floor, Kalkaji, New Delhi - 110019 e-mail: secretarial@siddhika.com website: www.siddhika.com

NOTICE OF 11[™] ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

The Eleventh (11") Annual General Meeting (AGM) of the Siddhika Coatings Limited (Company) will be held through Video Conferencing or Other Audio Visual Means ("VC") on Wednesday, September, 15, 2021 at 11.00 A.M. IST in compliance with General Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and January 13, 2021 and SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021 (Collectively Relevant Circulars), other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and the Rules made thereunder and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (SEBI Listing Regulations) to transact the business as set out in the Notice dated 12 August, 2021 Members attending the AGM through VC facility shall be reckoned for the purpose of quorum as per Section 103 of the Companies Act, 2013.

The Members of the Company are hereby informed that pursuant to relevant circulars the Company has dispatched the Notice of AGM and Annual Report by electronic mode on 14 August, 2021 to all the Members whose e-mail IDs are registered with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA)/ Depository Participants (DP) The aforesaid documents are also available on the Company's Website www.siddhika.com and Website of the Stock Exchange i.e. National Stock Exchange of India Limited.

Members who are holding shares in physical mode and have not register their mail addresses will have an opportunity to cast their vote remotely on the business to be transacted at the AGM through remote e-voting or through e-voting system during AGM. The manner of e-voting for shareholders holding shares in electronic and physical mode

has been provided in the Notice of AGM. Members holding shares in electronic mode are requested to register their email addresses and mobile numbers with relevant depositories through their DP. Members holding shares in physical mode are requested to furnish such details to Company's

RTA, Skyline Financial Services Private Limited. Procedure for remote e-voting and e-voting during AGM

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, The Relevant Circulars, Secretarial Standard on General Meetings issued by Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, The Company is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM and For this purpose, the Company has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized e-Voting's agency. The facility of casting votes by a member using remote evoting as well as the e-voting system on the date of the AGM will be provided by CDSL.

Members joining the AGM through VC shall be permitted to exercise their right to vote using the e-voting facility at the AGM, provided they have not cast their votes using remote e-voting facility. The members who have cast their votes prior to AGM using the remote e-voting facility may also join the AGM through VC but shall not be entitled to cast their votes again. The facility of castings votes by a member using e-voting during the AGM will also be provided by CDSL.

Information and instructions relating to remote e-voting as well as e-voting during the AGM have been provided in the Notice of AGM. The same login credentials should be

used for attending the AGM through VC.

E-voting rights of the members will be reckoned on the equity shares held by them either in physical or in electronic form as on September 8, 2021. The e-voting period commences from 09.00 A.M. IST on September 10, 2021 (Friday) and ends at 05.00 P.M. IST on September 14, 2021 (Tuesday). During this period, the members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be displayed by CDSL

Any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. September 8, 2021 may obtain Login ID and password/seek assistance related to evoting by sending a request to helpdesk.evoting@cdslindia.com or by contacting Company's RTA, Skyline Financial Services Private Limited, D-153A, 1st Floor, Okhla Industrial Area Phase-I, New Delhi – 110020, India, Telephone: 011 40450193-97. Facsimile: 011 26812682, email: info@skylinerta.com

compliances@skylinerta.com. In case of any queries, the members may refer "Frequently Asked Questions" (FAQs) and e-voting Manual for members available at the help section of www.evotingindia.com or contact helpdesk.evoting@cdslindia.com/CDSL toll free no. 18002005533. In case of any grievances connected with the e-voting please contact Mr. Ashish Kumar Sonwani, Company Secretary and Compliance Officer, Siddhika Coatings Limited, L-9, Lower Ground Floor, Kalkaji, New Delhi – 110019, Email ID-

secretarial@siddhika.com, and Telephone No. 011-41601442. Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 is also hereby given that the Register of Members, Register of Beneficial Owners and Share Transfer Books of the Company will remain closed from September 09, 2021 to September 15, 2021 (both days inclusive) for the purpose of 11" AGM and to determine the

shareholders entitled to receive dividend on the Equity Shares. The Cut-Off Date and Record Date for the purpose of e-voting and dividend is September 08, 2021 By Order of the Board of Directors For Siddhika Coatings Limited

Place: New Delhi Charitra Maheshwari Date: 14.08.2021 Managing Director

शिवालिक बाइमेटल केट्रोल्स लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : 1618, न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलेक्स, चम्बाघाट, जिला सोलन, हि.प्र. 173213

मुख्य कार्यालय : एच-2, सुनेजा चैम्बर्स, द्वितीय तल, अलकनंदा कॉमर्शियल काम्पलेक्स, नई दिल्ली-110019, दूरभाष : +91-011-26027174, 26026362, फैक्स : +91-011-26026776 वेबसाइट : www.shivalikbimetals.com, ई-मेल : investor@shivalikbimetals.com सीआईएन : L27101HP1984PLC005862

जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए कॉर्पोरेट मामले मन्त्रालय (एमसीए) ने अपने परिपत्र दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंस अथवा अन्य ऑडियो-वीडियो साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की अनुमित दी है। इन परिपत्रों तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा सेबी (सुचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुपालन में कम्पनी की भावी एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बुधवार, 15 सितम्बर, 2021 को 11.30 बजे प्रातः आयोजित की जायेगी। उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों के पास भेजी गयी है जिनके ई-मेल आईडी पहले से कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। कम्पनी पूर्व की भाँति अपने सभी सदस्यों को ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग की

सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। यदि आपका ई-मेल आईडी पहले से ही कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है तो वित्त वर्ष 2020-21 हेतु वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना तथा ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण आपके पंजीकृत ई-मेल पते पर भेज दिया जायेगा। यदि आपने इसे कम्पनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं किया है कृपया वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट तथा ई-वोटिंग हेतु लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन करके अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करा लें।

> | ई-मेल पता पंजीकृत कराने हेतु कम्पनी रजिस्ट्रार एवं शेयर अन्तरण एजेंट, मास सर्विसेज लिमिटेड के पास फोलियो नम्बर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन्ड प्रति (आगे तथा पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति) प्रस्तुत करते हुए info@masserv.com पर निवेदन भेजें। कृपया मूल कैंसिल्ड चेक के साथ अपना बैंक विवरण हमारे आरटीए (अर्थात मास सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज-II, नई दिल्ली-110020 के पास यदि पहले से पंजीकृत नहीं है तो फोलियो नं. का उल्लेख करते हुए पत्र के साथ भेजे)। कृपया 8 सितम्बर, 2021 तक या इससे पूर्व इसे अपडेट करा लें।

डीमैट धारिता कृपया अपने डिपॉजिटरी भागीदार (डीपी) के साथ सम्पर्क करें और डीपी के परामर्शानुसार अपना ई-मेल पता पंजीकृत करायें। यदि कम्पनी द्वारा घोषित होता है तो एनएसीएच द्वारा लाभांश के भुगतान हेतु अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण भी अपडेट करायें।

कृपया 8 सितम्बर, 2021 तक या इससे पूर्व इसे अपडेट करा लें। एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.shivalikbimetals.com तथा बीएसई की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की परिगणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम पूरा करने के उद्देश्य से की जायेगी।

प्रति शेयर आय (रु. 10/- प्रत्येक का) (सतत एवं असतत अवधि हेतु)

(2) डाइल्यूटेड

स्थानः नर्ड दिल्ली

तिथि: 12.08.2021

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 12.08.2021

कृते शिवालिक बाइमेटल कंट्रोल्स लिमिटेड

आरती साहनी

(भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई CIN: U22213DL2006GOI14476 खुली निविदा (OPEN TENDER NOTICE) मुख्य महाप्रबंधक भाप्रम् निम्नलिखित निविदा के लिए खली निविदा (एनसीबी) आमंत्रित करते हैं:

वियुरमेंट ऑफ 7.5 एमटी ऑफ प्रैशर सेनसिटि ओबीए फ्री सेल्फ एड्हीसिव स्टिकर पेपर विध पेरमानें नॉन रेम्वाबल एकरिलिक एड्हीसिव(निविदा-60000 6631) वेस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइ http://ispnasik.spmcil.com देखें. को

तंशोधन/शुद्धिपत्रक केवल वेबसाइट पर ही प्रकाशित की संयुक्त महाप्रबंधक (सामग्री) NOTICE FOR APPEARANCE

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, DELHI (BENCH - IV) Mr. Anil Syal, Suspended Director of Flywheel Logistics Solutions Pvt. Ltd., 117, First Floor, Uday Park, New Delhi - 110049

Mrs. Meenakshi Syal, Wlo Mr. Anil Syal, Suspended Director of Flywheel Logistics Solutions Pvt. Ltd., 117, First Floor, Uday Park, New Delhi - 110049 . M/s. Lodestone Infracon Pvt. Ltd., N-1. Greater

Kailash-I, New Delhi- 110048 4. Galaxy Engineering System Through Mr. Ashok Kumar, Plot No. 3405/4624, Khera Dewat Road, Nr. Shiv Vatika, Bhim Nagar Chowk, Sukhrali, Gurgaon - 122001

TAKE NOTICE, an Interlocutory Application being IA

No. 2410/2020 under Section 43 and 66 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 has been filed against you before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench – IV in the matter of "Nuvision (Delhi) Pvt. Ltd. vs. Flywheel Logistics Solutions Pvt. Ltd. [CP(IB) No.651(ND)/2020]. The Application came up for hearing on 27.07.2021 wherein you did not appear. Hence, this notice is being issued to you to appear through self or authorized pleader on your behalf before the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench-IV on 27.08.2021 at 10:30 am failing which appropriate order may be passed by Hon'ble NCLT,

NewDelhi, Bench-IV in your absence. This notice is issued by the undersigned in compliance of Order dated 27.07.2021 of the Hon'ble National Company Law Tribunal, Bench - IV. Sd/- Mr. Risbhabh Chand Lodha

Resolution Professional for Flywheel Logistics Solutions Pvt. Ltd. (under CIRP) IBBI Regn. No: IBBI/IPA-001/IP/ P-01075/2017-2018/11766

Date: 13.08.2021| Place: Bhilwara

महान फूड्स लिमिटेड

कम्पनी सचिव

पंजी. कार्यालयः एम-19, 1ला तल, एम ब्लॉक मार्केट, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 टेली.: 011-43107200, फैक्स: 011-43107250, ईमेल: info@mahaanfoods.com वेबसाईट: www.mahaanfoods.com, CIN: L15419DL1987PLC350285 30.06.2021 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

	50.50.2021 an thirt thing at 51(1914)	19111 - 11	रगाना जग ।जज	
			(रु. ल	ाख में, अन्यथा कथित)
क्र.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
सं.		30/06/2021 अलेखापरीक्षित	30/06/2020 अलेखापरीक्षित	31/03/2021 लेखापरीक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय	8.98	20.64	94.36
2.	अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(0.30)	7.52	7.92
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	(0.30)	7.52	7.92
4.	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (विशिष्ट तथा असाधारण मदों के पश्चात)	(0.10)	4.85	10.18
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) शामिल]	(0.10)	4.85	10.18
6.	इक्विटी शेयर पूँजी	350.07	350.07	350.07
7.	आरक्षियाँ (गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति को छोड़कर)	-	-	1458.43

टिप्पणी: 1. उपरोक्त वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 2 अगस्त, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख

(0.00)

(0.00)

2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्सचैंजों में दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.mahaanfoods.com पर उपलब्ध है। महान फुड्स लिमिटेड के लिये

संजीव गोयल प्रबंध निदेशक

0.14

0.14

0.29

0.29

DIN: 00221099

तराई फूड्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 13, हनुमान रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, दूरभाष : 011-41018839 सीआईएन नं. : L15142DL1990PLC039291, वेबसाइट : www.taraifoods.com, ई-मेल : grvnces.tfl@gmail.com

२०२१ को समान निमारी हेन शलेकामरीधिन स्नैगरशलोन किनीस मिनामर्ग

	विवरण	समाप्त तिमाही	पूर्व समाप्त तिमाही	संगत समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
		30.06.2021 अलेखापरीक्षित	31.03.2021 लेखापरीक्षित	30.06.2020 अलेखापरीक्षित	31.03.2021 लेखापरीक्षित	31.03.2020 लेखापरीक्षि
1	प्रचालनों से कुल आय (निबल)	76.3	65.5	52.2	282.7	299.5
2	अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	4.1	-27.1	-12.6	-22.9	-6.3
3	कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	4.1	-27.1	-12.6	-23.7	-8.8
4	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	4.1	-27.1	-12.6	-23.7	-8.8
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]		-25.0	-12.6	-21.6	-8.8
6	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूँजी (रु. 10/- फेस वैल्यू)	1536.41	1536.41	1536.41	1536.41	1536.41
7	आरक्षियाँ (गत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में पुनर्मूल्यांकन आरक्षी एवं डेबिट शेष को छोड़कर)		448.85	448.80	448.85	448.80
8	बेसिक एवं डाइल्यूटेड ईपीएस (वार्षिकीकृत नहीं) (कर, अपवादित तथा असाधारण प्रभारों के पश्चात)					
	बेसिक	0.03	-0.18	-0.08	-0.15	-0.06
	डाइल्यूटेड	0.03	-0.18	-0.08	-0.15	-0.06

1. कम्पनी के वित्तीय परिणाम कम्पनी अधिनियम. 2013 की धारा 133 एवं उनके अधीन निर्गत नियमों के साथ पठित के तहत भारतीय लेखांकन मानक (इण्ड एएस) के अनुसार तैयार किये गये हैं।

. उपर्यक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गयी है और 13.08.2021 को आयोजित कम्पनी के निदेशक मण्डल की बठक में अनमोदित किया गया। 3. कम्पनी ताजे, फ्रोजन फुड्स तथा सब्जियों के निर्माण में अपना प्रचालन करती है और इण्ड एएस–108 के अनुसार कोई भी खण्ड प्रतिवेदनीय नहीं है। ।. वर्तमान अवधि की प्रस्तुति को सुनिश्चित करने के लिए जहाँ उचित समझा गया गत वर्ष के ऑकड़ों को पुनर्समूहीकृत, पुनर्वगीकृत किया गया है।

कृते तराई फूड्स लिमिटेड ह./- विजय कान्त असीज

अनुपालन अधिकारी सह कम्पनी सचिव स्थान : रुद्रपुर दिनांक : 13.08.2021 ए-13390

कोवेन्ट्री क्वॉयल-ओ-मैटिक (हरियाणा) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 87वाँ किमी स्टोन, एनएच-8, दिल्ली-जयपुर रोड, ग्राम सलवास, सांगवाड़ी, जिला रिवाड़ी 123401 (हरियाणा) सीआईएन : L74999HR1988PLC030370, वेबसाइट : (www.coilomatic.com); ई-मेल : info@coilomatic.com 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार (रु. लाख में)

চ .	विवरण	3 माह समाप्त	3 माह समाप्त	3 माह समाप्त	समाप्त वर्ष
. i.		30-जून-2021	31-मार्च-2021	30-जून-2020	31-मार्च-202 ⁻
		अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1.	अन्य आय/प्रचालनों से आय	1,042.42	1,455.17	242.43	3,909.55
2.	अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	14.09	(98.72)	(82.20)	(48.45)
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	14.09	(98.72)	(82.20)	(48.45)
٠.	कर पश्चात अवधि हेतु निबल लाभ/(हानि) (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात)	14.09	(98.72)	(82.20)	(48.45)
	अविध हेतु कुल व्यापक आय [अविध हेतु लाभ/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) सहित]	14.09	(88.79)	(84.20)	(40.51)
). 7.	इक्विटी शेयर पूँजी आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रत्येक) (सतत एवं असतत प्रचालनों हेतु) :	450.80	450.80	450.80	450.80
	1. बेसिक :	0.31	(2.19)	(1-82)	(1-07)
	2. डाइल्यूटेड :	0.31	(2.19)	(1-82)	(1-07)

1. उपराक्त पारणामा को आडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 13 अगस्त, 2021 को आयोजित उनकी बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत अपेक्षित के अनुसार 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही की सीमित समीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गयी है। 2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज के पास दाखिल तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट लिंक (bseindia.com/# corporates) पर उपलब्ध है। निदेशक मंडल के लिए तथा उनकी ओर से

> आर एम बाफना प्रबंध निदेशक

DIN No. 00159855

प्ररूप संख्या आईएनसी-26 कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में }

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपघारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 (5) (ए) के मामले में

> होलोसेफ सिक्योरिटी लेबल्स प्राइवेट लिमिटेड

> >आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

(CIN: U36900DL2008PTC180812) जिसका पंजीकृत कार्यालय: C/o श्री रवि झा सी-41, मिडिल सर्कल, द्वारका सदन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 में हैं, के मामले में

तदद्वारा सार्वजनिक सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) के अधीन आवेदन का प्रस्ताव करती है. जिसमें कंपनी का पंजीकृत कार्यालय **'राष्ट्रीय** राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में थ्थानांतरित करने के लिए **सोामवार, 09 अगस्त 2021** को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम झापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रश्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का **गरण उल्लिखित हो, के साथ अपनी आपत्ति क्षेत्रीय** निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से ग्रीदह (14) दिनों के भीतर क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, बी−2 विंग, दूसरा तल, ।र्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली--10003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पते पर भी मेजें ।

C/o श्री रवि झा सी-41, मिडिल सर्कल, द्वारका सदन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 आवेदक के लिए और आवेदक की ओर से तिथि: 13.08.2021

होलोसेफ सिक्योरिटी लेवल्स प्राइवेट लिमिटेड पंकज कुमार (निदेशक) विनांक: 13.08.2021

डीआईएन: 02195405 स्थान : नई दिल्ली

नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल नई दिल्ली बेंच स्थित नई दिल्ली के समक्ष कंपनी आवेदन सं. सीए(सीएए)

> 50/एनडी/2021 से संबंधित कम्पनी याचिका नं. सीएए-81/(एनडी)/2021 कम्पनी अधिनियम, 2013 के विषय में

कंपनीज़ (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लाग प्रावधानों के विषय में

...याचिकाकर्ता नं. 1/अंतरक कंपनी नं. ओंकारेश्वरी एक्जिम लिमिटेड ...याचिकाकर्ता नं. 2/अंतरक कंपनी नं. 2

इक्षान एंटरप्राईज लिमिटेड ...याचिकाकर्ता नं ३/अंतरक कंपनी नं. ३ मकाम्स इंडस्टीज प्राईवेट लिमिटेड ...याचिकाकर्ता नं. ४/अंतरिती कंपनी

उनके संबंधित शेयरधारक और लेनदारों

समामेलन की योजना के विषय में (अंतरक कंपनी नंबर 1 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत 26 जुलाई, 1995 को निगमित किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-12, आदर्शिनी प्लाजा, 91 अदचीनी, अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-110017 में स्थित है कंपनी नंबर 2 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 13 मार्च, 2015 को निगमित किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-12, आदर्शिनी प्लाजा, 91 अदचीनी, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-110017 में स्थित है, कंपनी नंबर 3 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत 2 मार्च, 2016 को निगमित किया गया था जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-12, आदर्शिनी प्लाजा, 91 अदचीनी, श्री अरबिंदो मार्ग, नई दिल्ली-110017 में स्थित है और अंतरिती कंपनी

को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत 27 अप्रैल, 2009 को निगमित किया गया जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-12, आदर्शिनी प्लाजा, 91, अधचीनी श्री अरबिंदो मार्ग, नई

दिल्ली-110017 में स्थित है। याचिका की सचना

ध्यान दें कि कंपनीज़ (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कम्पर्न अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अधीन दिनांक 18 जून, 2021 को विकर्तन इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड, ओंकारेश्वरी एक्जिम लिमिटेड, इक्षान एंटरप्राईज लिमिटेड, के साथ मकाम्स इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के समामेलन की योजना को मंजुरी प्राप्त करने के लिए माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली के समक्ष उपरोक्त नामित याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका प्रस्तृत की थी, 22 जुलाई, 2021 को सूचीबद्ध हुआ था और आदेश दिनांक 26 जुलाई, 2021 के अनुसार कथित याचिका की सुनवाई माननीय नेशनल कम्पनी लॉ ट्रिब्यनल नई दिल्ली बेंच, नई दिल्ली के समक्ष 13 सितंबर, 2021 को प्रातः 10.30 बजे निश्चित की गई है।

कथित याचिका के समर्थन या निषेध के इच्छुक किसी व्यक्ति को अपने आशय का नोटिस, स्वयं या उसके वकील द्वारा नाम व पते के साथ याचिका की सुनवाई के लिए निश्चित तिथि से 2 (दो) दिन पूर्व याचिकाकर्ता वकील को पहुंच जानी चाहिए। जहां, वह याचिका का विरोध करना चाहता है, निषेध के कारणों या उसके शपथपत्र की प्रति को ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तृत किया जाना चाहिए। याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रति के इच्छुक किसी व्यक्ति को उसके के लिए निर्धारित प्रभारों की अदायगी पर प्रदान की जाएगी।

दीपाली मित्तल तथा अमित गोयल. याचिकाकर्ताओं के वकील तिथि: 11.08.2021 171, चित्र विहार, दिल्ली- 110092 स्थानः नई दिल्ली

द्रम

पंजीकृत कार्यालय: 37, दूसरा तल, रानी झांसी रोड, मोतिया खान, पहाड़गंज दिल्ली नई दिल्ली-110055

साधना ब्रांडकास्ट लिमिटेड (CIN: L92100DL1994PLC059093)

ई-मेल आईडी: cbnl.delhi@gmail.com, वेबसाईट: www.sadhnabroadcost.com 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का विवरण

વિવર્શ	समाप्त ।तमाहा	समाप्त पूर्व	पूज जब म	ाताथ तक व
(नीचे टिप्पणी देखें)	(30.6.2021)	तिमाही	ँ समाप्त	के आँकड़े
	(अनंकेक्षित)	(31.3.2021)	तत्स्थानीय 3	(31.03.2021
		(अंकेक्षित)	महीने	(अंकेक्षित)
			(30.06.2020)	
			(अनंकेक्षित)	
परिचालनों से कुल आय	334.13	727.98	253.13	2249.65
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट	15.75	-74.90	-177.81	-12.83
एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*)				
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	15.75	-74.90	-177.81	-12.83
(विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*)				
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)	15.75	-57.55	-177.81	-11.11
(विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद*)				
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के	15.75	-57.55	-177.81	-11.11
बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के				
बाद से शामिल)				
इक्विटी शेयर पूंजी	1002.65	1002.65	1002.65	1002.65
आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार	0.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित				
आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा	-		-	
अवरुद्ध प्रचालनों के लिए)				
1. मूल	0.16	(0.58)	(1.77)	(0.11)
2.तरल	0.16	(0.58)	(1.77)	(0.11)
	(नीचे टिप्पणी देखें) परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*) कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद*) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इविनटी शेयर पूंजी आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनमूल्यांकन आरक्षितों के अंतिरिक्त आरक्षित आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 1. मूल	परिचालनों से कुल आय अविध के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट पृदं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*) कर से पूर्व अविध के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*) कर से बाद अविध के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*) कर से बाद अविध के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद*) अविध हेतु कुल च्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद से) अविध हेतु कुल च्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्विटी शेयर पूंजी 1002.65 आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथ अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 1. मूल 0.16	(नीचे टिप्पणी देखें) (30.6.2021) (अनंकेक्षित) (31.3.2021) (अंकेक्षित) परिचालनों से कुल आय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट 15.75 74.90 एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*) कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) 15.75 74.90 (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*) कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) 15.75 57.55 (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद*) अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर के बाद से शामिल) इक्विटी शेयर पूंजी 1002.65 आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार 0.00 0.00 पुनमूंल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 1. मूल 0.16 (0.58)	(नीचे टिप्पणी देखें) (30.6.2021) (अनंकेक्षित) (31.3.2021) (अकेक्षित) (31.3.2021) (अकेक्षित) (30.06.2020) (अनंकेक्षित) परिचालनों से कुल आय 334.13 727.98 253.13 अविध के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट 15.75 -74.90 -177.81 एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व*) कर से पूर्व अविध के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) 15.75 -74.90 -177.81 (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद*) कर से बाद अविध के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) 15.75 -57.55 -177.81 (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद*) अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के वाद से शामिल) इविनटी शेयर पूंजी 1002.65 1002.65 1002.65 आरक्षित (पूर्व वर्ष के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार 0.00 0.00 पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित आय प्रति शेयर (र. 10/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिए) 1. मूल 0.16 (0.58) (1.77)

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टाक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज तथा सूचीबद्ध सत्ता की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

2. लेखा नीतियों में परिवर्तन के कारण शुद्ध लाभ/ हानि, कुल व्यापक आय अथवा किसी अन्य संबंधित वित्तीय मदों पर प्रभाव को फट नोट द्वारा उदघाटित किया जाएगा।

3. # जो भी लागू हो, इंड-एएस नियमावली/एएस नियमावली के अनुसार विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों को लाभ तथ हानि के विवरण में समायोजित किया गया है। साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के लिए

नामः तेजिन्दर कौ पदनाम: प्रबंध निदेशक DIN: 06799570

विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN: L25209RJ2009PLC030620

पंजीकृत कार्यालय : 312, नवजीवन कॉम्पलेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर-302006 ई-मेल : investor@vinayakpolycon.com, वेबसाईट : www.vinayakpolycon.com

फोन: 0141-2377007, फैक्स: 0141-2378830

वीडियों कान्फ्रेंस द्वारा अयोजित वार्षिक साधारण सभा संबंधी सूचना जारी कोविड-19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) ने अपने परिपन्न दिनांक 5 मई 2020 को, 8 अप्रैल 2020 के परिपत्रों और 13 अप्रैल 2020 के परिपत्रों एवं भारतीय प्रतिभृति विनिमय बोर्ड द्वारा जारी किए गए परिपत्रों दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य ऑडियो-विज्ञअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से एजीएम को रखने की अनुमति दी गई। इन परिपत्रों के अनुपालन में और कंपनी अधिनियम 2013 और संबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के संबंधित प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की आगामी एजीएम रविवार, 20 सितंबर 2021 को सायं 4:00 बजे वीसी/ ओएवीएम द्वारा आयोजित की जाएगी। पूर्वोक्त परिपत्रों के अनुसार, विल्त वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम का नोटिस

केवल उन्हीं सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा भेजा जाना है, जिनका ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। कंपनी एजीएम के ई-वोटिंग और पूर्व सदस्यों के समान अपने सभी सदस्यों को दरस्थ ई-वोटिंग सविधा भी प्रदान कर रही है। यदि आपकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं, तो एजीएम की सूचना के साथ-साथ वित्त वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण आपके पंजीकत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे। यदि आपने अपनी ई-मेल आईडी कंपनी / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत नहीं की है, तो कपया विलीय वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-बोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आई डी को दर्ज करने के निर्देशों का पालन करें। ई-मेल पते को पंजीकृत कराने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेन्ट्स, मास सर्विसेज लिमिटेड को info@masserv.com पर अन्रोध भेजें, जिसमें फालियों नंबर,

शेयरधारक का नाम, शेयर सर्टिफिकेट (आगे और पीछे) की स्कैन कॉर्पी, पैन (पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित की गर्ड स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित की गर्ड स्कैन कॉपी) उपलब्ध कराना होगा। यदि पहले से पंजीकत नहीं है तो कपया अपना बैंक विवरण को हमारे आरटीए (यानी मास सर्विसेज लिमिटेड, टी-34, द्वितीय तल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फोज-2, नई दिल्ली-110020) को मूल रद्द चैक के साथ भेजे जिसमें फालियों नं. भी उल्लेखित हो। उपरोक्त को कपया 26.08.2021 या उससे पहले ही अपडेट करें। कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को संपर्क करें और डीपी द्वारा सलाह दी गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ई-मेल पता पंजीकत करें । कंपनी द्वारा घोषित लाभांश भगतान के

लिए कृपया डीपी कंसाध अपने विवरण को भी अपडेट करें। उपरोक्त को कुपया 26.08.2021 या उससे पहले ही अपडेट करें। सदस्य एजीएम के नोटिस में निर्दिष्ट व्यवसायों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं डिमटेरियलाइज्ड मोड, भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन्हें रिमोट ई-बोटिंग का तरीका उन्हें एजीएम के नोटिस में प्रदान किया जायेगा । उपरोक्त विवरण कंपनी की वेबसाईट www.vinayakpolycon.com पर भी उपलब्ध होगा इलेक्टॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने की सविधा भी एजीएम में उपलब्ध कराई जाएगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वह

र्-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। जिन सदस्यों को ई-मेल प्राप्त नहीं होता है या जिनके ई-मेल पते कंपनी / आरटीए / डीपी के साथ पंजीकत नहीं हैं, वे एजीएम के नोटिस में दिए गए निर्देशाों का पालन करके लॉगिन क्रेडेंशियल उत्पन्न कर सकते हैं। उसी लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग वीसी / ओएवीएम क्रे माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी किया जा सकता है।

एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान कर सकेंगे।

[Comprising Profit / (Loss) for the period

Reserves (excluding Revaluation Reserve

as shown in the Audited Balance Sheet of

(after tax) and other Comprehensive

Income (after tax)]

Equity Share Capital

दिनांक: 13.08.2021

विल वर्ष 2020-2021 के लिए एजीएम और वार्षिक रिपोर्ट की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.vinavakpolycon.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com. पर भी उपलब्ध होगी। बीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उददेश्य से गिना जायेगा।

वास्ते- विनायक पॉलीकोन इन्टरनेशनल लिमिटेड

रश्मि अग्रवाल (कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी)

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED CIN: L74110DL1982PLC013956

Regd Off: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Dellhi-110085

Ph No: : 011-27860681 **Extracts of the Standalone Unaudited Financial Results**

Email id : gulmoharlimited@gmail.com | Website : gulmoharinvestments.com

For the Quarter ended June 30, 2021

(Rs. in Lakhs) Quarter Ended Year Ended 30/06/2021 31/03/2021 30/06/2020 31/03/2021 Particulars (Un-audited) (Audited) (Un-audited) (Audited) 2.95 14.39 2.95 23.58 Total income from operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax Exceptional and/or Extraordinary items) (4.21)5.59 2.93 (2.47)Net Profit / (Loss) for the period before tax 5.59 2.93 (2.47)(after Exceptional &/or Extraordinary items) (4.21)Net Profit / (Loss) for the period after tax 5.59 2.17 (after Exceptional &/or Extraordinary items) (4.21)(2.47)Total Comprehensive Income for the period

(2.92)(2.92)(2.92)(5.40)Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing & discontinued operations) -1. Basic : (1.72)2.28 0.88 (1.01)2 Diluted (1.72)2.28 0.88 (1.01). The above is an extract of the detailed format of unaudited Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Quarterly Financial Results are available on the Website of the Company i.e. (www.gulmoharinvestments.com) and website of the stock

(4.21)

24.50

5.59

24.50

2.17

24.50

Kiran Mittal (Director)

(2.47)

24.50

Exchange(s) (www.cse-india.com) and (www.msei.in). 2. The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their meeting held on 13th August, 2021.

3. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-

AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with IND -AS rules (As amended). For and on behalf of the Board of Directors of Gulmohar Investments and Holdings Limited

Date: 13.08.2021 Place: New Delhi

DIN: 00749457 विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

CIN: L25209RJ2009PLC030620 (क, लाखों में राशि) 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए स्टैण्डएलॉन गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार समाप्त तिमाही समाप्त वार्षिक वर्ष समाप्त तिमाही

पंजीवत कार्यालय : 312, नवजीवन कॉम्पलेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर-302006 (राज.) इंडिया। फोन : 0141-2377007

फैक्स : 0141-2378830, ई-मेल : investor@vinayakpolycon.com, वेबसाईट : www.vinayakpolycon.com

सं.	विवरण	30-06-2021	31-03-2021	30-06-2020
		गैर अंकेक्षित	अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित
1.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) कर के पहले की अवधि के लिए असाधारण और	190.72	1157	210.76
3	असाधारण वस्तुओं से शुद्ध लाभे /(हानि) कर के पहले शुद्ध लाभ /(हानि)(असाधारण और /	-19.38	-22.19	-24.55
	या असाधारण वस्तुओं से बाद)	-19.38	-22.19	-24.55
4.	कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/ या असाधारण वस्तुओं से बाद)	-18.89	-19.27	-23.83
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) के लिए लाभ/हानि	-18.89	-19.27	-23.83
6.	समता अंश पूंजी	308.13	308.13	308.13
7. 8.	रिज़र्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त) आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए)	(4)	124.98	0.50
	1. मूल	-0.61	-0.63	-0.77
	2. तरल	-0.61	-0.63	-0.77

रिपोंटिंग के रूप में इंडस्ट्रीज में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांनों के अनुसार तैयार किये गये है, इसके तहत जारी प्रासींगक नियमों के साथ पढ़ें।(2) उपरोक्त विवरण सेवी (सुचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईंट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.vinayakpolycon.com) पर उपलब्ध है । बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से स्थान : जयप्र विक्रम बैद (पूर्णकालिक निदेशक एवं मख्य विलीय अधिकारी) दिनांक : 13 अगस्त, 2021

Chandigarh

टिप्पणी : (1) इन स्टेंडअलोन विलीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित ind AS 34 अंतरिम विलीय

www.readwhere.com

स्थानः रेवाड़ी (हरियाणा)

तिथि: 13 अगस्त, 2021